

בְּהַן	אֶבֶן	הַגְּבוּל	וְעֵלָה	הָעֵרְבָה לְבֵית	מִצְפּוֹן	וְעֵבֶר	הַגְּזֵלָה בְּבֵית	הַגְּבוּל	וְעֵלָה	6
बोहन	पत्थर	सीमा	और-चढ़ी	बैत-अराबा-को	उत्तर-से	और-गुज़री	बैत-हागला	सीमा	और-चढ़ी	
H0932	H0068	H1366	H5927	H1026	H6828		H1031	H1366	H5927	

בֶּן-רְאוּבֵן:
रऊबेन-पुत्र-
[H7205](#)

तब उत्तरी सीमा बेथोगला से होती हुई और बेतराबा तक चली गई थी। यह सीमा लगातार बोहन की चट्टान तक गई थी। (बोहन रूबेन का पुत्र था।)

זָכַח	אֶשְׁרָ-	הַגְּלִיל	אֶל-	פְּנֵה	וּצְפוֹנָה	עֶבֶר	מֵעֵמֶק	דְּבִירָה	וְהַגְּבוּל	וְעֵלָה	7
सामने	जो-	गिलगाल	की-ओर	मुड़ता-है	और-उत्तर	आकोर	घाटी-से	दबीरा	सीमा	और-चढ़ी	
H5227		H1537	H0413	H6437	H6828	H5911	H6010		H1366	H5927	

וְהָיוּ	שְׁמוֹשֵׁעִין	מֵי-	אֶל-	הַגְּבוּל	וְעֵבֶר	לְנַחַל	מִנְגֵב	אֶשְׁרָ	אֲדָמִים	לְמַעַלָּה	
और-थे	एन-शेमेश	जल-	की-ओर	सीमा	और-गुज़री	नाले	दक्षिण-में	जो	अदुम्मीम	चढ़ाई	
H1961	H5885	H4325	H0413	H1366			H5045		H0131	H4608	

תְּצַאֲתוּ
एन-रोगेल
[H5883](#)

אֶל-
की-ओर
[H0413](#)

תְּצַאֲתוּ
निकास-उसके
[H8444](#)

तब उत्तरी सीमा आकोर की घाटी से होकर दबीर तक गई थी। वहाँ सीमा उत्तर को मुड़ती थी और गिलगाल तक जाती थी। गिलगाल उस सड़क के पार है जो अदुम्मीम पर्वत से होकर जाती है। अर्थात् स्रोत के दक्षिण की ओर। यह सीमा एनशेमेश जलाशयों के साथ लगातार गई थी। एन रोगेल पर सीमा समाप्त थी।

וְעֵלָה	יְרוּשָׁלַם	הָיָא	מִדְּבִיר	הַיְבוּסִי	כְּתָף	אֶל-	הַנֶּם	בֶּן-	נָוִי	הַגְּבוּל	וְעֵלָה	8
और-चढ़ी	यरूशलेम	वह	दक्षिण-से	यबूसी	ढलान	की-ओर	हिन्नोम	पुत्र-	घाटी	सीमा	और-चढ़ी	
H5927	H3389	H1931	H5045	H2983	H3802	H0413	H2011		H1516	H1366	H5927	

עֵמֶק	בְּקִצָּה	אֶשְׁרָ	הַמְּזָה	הַנֶּם	גֵּי-	פְּנֵי	עַל-	אֶשְׁרָ	הַהָר	רֹאשׁ	אֶל-	הַגְּבוּל
घाटी-	किनारे-में	जो	पश्चिम	हिन्नोम	घाटी-	सामने	पर-	जो	पहाड़	शिखर	की-ओर	सीमा
H6010			H3220	H2011	H1516	H6440			H2022		H0413	H1366

צְפֹנָה:
उत्तर-की-ओर
[H6828](#)

רְפָאִים
रपाईम

तब यह सीमा यबूसी नगर की दक्षिण की ओर से बेन हिन्नोम घाटी से होकर गई थी। उस यबूसी नगर को (यरूशलेम) कहा जाता था। (उस स्थान पर सीमा हिन्नोम घाटी की उत्तरी छोर पर थी।)

הָר-	עָרֵי	אֶל-	וְנֶצְאָ	נְפֹתוֹחַ	מֵי	מֵעֵינָן	אֶל-	הָהָר	מִרְאשׁ	הַגְּבוּל	וְתֵאֵר	9
पहाड़-	नगर	की-ओर	और-निकला	नप्तोह	जल	झरना	की-ओर	पहाड़	शिखर-से	सीमा	और-खींची	
H2022		H0413	H3318	H5318	H4325	H4599	H0413	H2022		H1366		

יְעָרִים:
किर्यत-यआरीम
[H7157](#)

הָיָא
वह
[H1931](#)

בְּעֵלָה
बाला
[H1173](#)

הַגְּבוּל
सीमा
[H1366](#)

וְתֵאֵר
और-खींची

עֶפְרוֹן
एप्रोन
[H6085](#)

उस स्थान से सीमा नेप्तोह के पानी के सोते के पास जाती थी। उसके बाद सीमा एप्रोन पर्वत के निकट के नगरों तक जाती थी। उस स्थान पर सीमा मुड़ती थी और बाला को जाती थी (बाला को किर्यत्यारीम भी कहते हैं।)

יְעָרִים	הָר-	כְּתָף	אֶל-	וְעֵבֶר	שְׂעִיר	הָר	אֶל-	יְמִנָה	מִבְּעֵלָה	הַגְּבוּל	וְנֶסֶב	10
यआरीम	पहाड़-	ढलान	की-ओर	और-गुज़री	सेईर	पहाड़	की-ओर	पश्चिम	बाला-से	सीमा	और-धूमि	
H3297	H2022	H3802	H0413			H2022	H0413	H3220	H1173	H1366	H5437	

הַמְּנָה:
तिम्ना
[H8553](#)

וְעֵבֶר
और-गुज़री

בֵּית-שְׁמוֹשׁ
बैत-शेमेश
[H1053](#)

וְיָרָד
और-उतरी
[H3381](#)

כְּסָלוֹן
कसालोन
[H3693](#)

הָיָא
वह
[H1931](#)

מִצְפּוֹנָה
उत्तर-से
[H6828](#)

बाला से सीमा पश्चिम को मुड़ी और सेईर के पहाड़ी प्रदेश को गई। यारीम पर्वत के उत्तर के छोर के साथ सीमा चलती रही (इसको कसालोन भी कहा जाता है) और बेतशमेश तक गई। वहाँ से सीमा तिम्ना के पार गई।

कालेब के भाई कनजी के पुत्र ओलीएल ने उस नगर को हराया। इसलिये कालेब ने अपनी पुत्री अकसा को उसे उसकी पत्नी होने के लिये प्रदान की।

הַחֲמֹר गधे	מֵעַל पर-से	וַתֵּצֵא और-उतरी	שָׁרָה खेत	אָבִיהָ पिता-उसके	מֵאִתּוֹ से-	לְשָׂאוֹ मांगने-को	וַתְּסַיְתְּרוּ और-उकसाया-उसे	בְּבוֹאָהּ आने-पर-उसके	וַיְהִי और-हुआ	18	
H2543		H6795		H0001	H0854	H7592	H5496	H0935	H1961		
							לָהּ तुझे	מֵהָ क्या-	כָּלֵב कालेब	לָהּ उससे	וַיֹּאמֶר और-कहा-
							H4100	H3612	H0559		

ओलीएल ने अकसा से कहा कि वह अपने पिता से कुछ अधिक भूमि माँगे। अकसा अपने पिता के पास गई। जब वह अपने गधे से उतरी तो उसके पिता ने उससे पूछा, “तुम क्या चाहती हो?”

מַיִם जल	גָּלַת झरने	לִי मुझे	וַתִּתֶּנָּה और-दे	וַתִּתְּנֵי दिया-मुझे	הַיְיָב दक्षिण	אֶרֶץ देश	כִּי क्योंकि	בְּרִכָּה आशीर्वाद	לִי मुझे	תָּנָה दे-	וַתֹּאמֶר और-कहा	19
H4325	H1543		H5414	H5414	H5045	H0776		H1293		H5414	H0559	
			פ	תַּחְתָּיוֹת नीचे-वाले	גָּלַת झरने	וְאֵת और-को	עֲלֵיוֹת ऊपर-वाले	גָּלַת झरने	אֵת को	לָהּ उसे	וַיִּתֵּן और-दिया-	
				H8482	H1543	H0853	H5942	H1543	H0853		H5414	

अकसा ने उत्तर दिया, “मैं आपसे एक आशीर्वाद पाना चाहूँगी। मैं पानी वाली भूमि चाहती हूँ जो भूमि हमें आपने नेगेव में दी है, वह बहुत सूखी है, इसलिए मुझे ऐसी भूमि दें जिस में पानी के सोते हों।” इसलिए कालेब ने उस भूमि के ऊपरी और निचले भाग में सोतों के साथ भूमि दी।

זֵאת यह	נַחֲלֹת विरासत	מִטָּה गोत्र	בְּנֵי- पुत्रों-	יְהוּדָה यहूदा	לְמִשְׁפַּחָתָם कुलों-के-अनुसार	20
H2063	H5159	H4294		H3063	H4940	

यहूदा के परिवार समूह ने उस भूमि को पाया जिसे परमेश्वर ने उन्हें देने का वचन दिया था। हर एक परिवार समूह ने भूमि का भाग पाया।

וַיְהִי और-थे	הָעָרִים नगर	מִקְצֵה किनारे-से	לְמִטָּה गोत्र-को	בְּנֵי- पुत्रों-	יְהוּדָה यहूदा	אֶל- की-ओर	גְּבוּל सीमा	אֶדוֹם एदोम	בְּנִיבָה दक्षिण-में	קַבְצֵאל कब्सेल	וְעָדָר और-एदेर	21
			H4294		H3063	H0413	H1366	H0123	H5045	H6909		
											וַיָּגוּר और-यागूर	
											H3017	

यहूदा के परिवार समूह ने नेगेव के दक्षिणी भाग के सभी नगरों को पाया। ये नगर एदोम की सीमा के पास थे। यह उन नगरों की सूची है: कबसेल, एदेर, यागूर,

וְקִינָה और-कीना	וְדִמּוֹנָה और-दीमोना	וְעֲדָעָה और-अदअदा	22
H7016	H1776	H5735	

कीना, दीमोना, अदादा,

וְקֵדֶשׁ और-केदेश	וְחָסוֹר और-हासोर	וַיִּתְּנֵן और-यित्लान	23
H6943	H2674	H3497	

केदेश, हासोर, यित्लान,

זֵיפ जीप	וְטֵלֵם और-तेलेम	וּבְעָלוֹת और-बअलोत	24
H2128	H2928	H1175	

जीप, तेलेम, बालोत,

חֲדָתָהוּ और-हासोर-हदत्ता	וְקָרְיֹת और-करियोत	חֲצֹרֹן हेसोन	הָיָא वह	חֲצוֹר हासोर	25
H2675	H7152	H2696	H1931	H2674	

हासोर्हदत्ता, करिय्योत—हेसोन (हासोर भी कहा जाता था।),

אָמָם 26
וּשְׁמַע וּמוֹלָדָה:
अमाम और-मोलादा
[H4137](#) [H8090](#) [H0538](#)

अमाम, शमा, मोलादा,

בֵּית וְהַשְׁמוֹן נְהַחֲצֵר 27
और-बैत-पेलेत और-हेशमोन और-हासर-गद्दा
[H1046](#) [H2829](#) [H2693](#)

हसर्गद्दा, हेशमोन, बेत्यालेत,

וּבְיוֹתָיָהּ שְׁבַעוֹבָאָר שׁוּעַלְוֹחֲצֵר 28
और-बिज्योत्या और-बेर-शेबा और-हासर-शूआल
[H0964](#) [H0884](#) [H2705](#)

हसर्शूआल, बेर्शेबा, बिज्योत्या,

בַּעֲלָה 29
וְעֵימ וְעֵצִים:
बाला और-इय्यीम और-एसेम
[H6107](#) [H5864](#) [H1173](#)

बाला, इय्यीम, एसेम

וְאֶלְתוֹלָד וּכְסִיל וְחַרְמָה: 30
और-एलतोलाद और-कसील और-होर्मा
[H2767](#) [H3686](#) [H0513](#)

एलतोलाद, कसील, होर्मा,

וּצְקָלָג וּמַדְמִנָּה וְסַנְסַנָּה: 31
और-सिकलग और-मदमन्ना और-सनसन्ना
[H5578](#) [H4089](#) [H6860](#)

सिकलग, मदमन्ना, सनसन्ना,

וּלְבָאוֹת וְשִׁלְחִים וְעֵין וְרִמְמוֹן כָּל-עָרִים עֲשָׂרִים וְהַשְׁעָ וְחֲצֵרֵיהֶן: 32
और-लबाओत और-शिल्हीम और-एन और-रिम्मोन सब-नगर नतीस और-नौ और-गावों-उनके
[H8672](#) [H6242](#) [H3605](#) [H5871](#) [H7978](#) [H3822](#)

लबाओत, शिल्हीम, एन तथा रिम्मोन। सब मिलाकर उन्तीस नगर और उनके सभी खेत थे।

בְּשַׁפְּלָה אֶשְׁתָּאוֹל וְצָרְעָה וְאַשְׁנָה: 33
तराई-में एश्ताओल और-सोरआ और-अश्ना
[H0823](#) [H6881](#) [H0847](#) [H8219](#)

यहूदा के परिवार समूह ने पश्चिमी पहाड़ियों की तलहटी में भी नगर पाए। उन नगरों की सूची यहाँ है: एश्ताओल, सोरा, अश्ना,

וְזַנְוִחַ וְנָיִים וְתַפּוּחַ וְהָעֵינָם: 34
और-ज़ानोह और-एन-गन्नीम तप्पूह और-एनाम
[H5879](#) [H5873](#) [H2182](#)

जानोह, एनगन्नीम, तप्पूह, एनाम,

יְרֵמוֹת וְעַדְלָם שׁוֹכָה וְעַזְקָה: 35
यर्मूत और-अदुल्लाम सोको और-अजेका
[H5825](#) [H7755](#) [H5725](#) [H3412](#)

यर्मूत, अदुल्लाम, सोको, अजेका,

	וּחְצֵרֵיהֶן:	עֶשְׂרָה	אַרְבַּע-	עָרִים	וּגְדֵרוֹתֵיהֶם	וְהַגְּדֵרָה	וְעִדְיֹתֵיהֶם	וְשַׁעְרֵיהֶם	36
	और-गांवों-उनके	दस	चौदह-	नगर	और-गेदरोतैम	और-गेदेरा	और-अदीतैम	और-शारईम	
		H6240	H0702		H1453	H1449	H5723	H8189	

शारैम, अदीतैम और गदेरा (गदेरोतैम भी कहा जाता था)। सब मिलाकर वहाँ चौदह नगर और उनके सारे खेत थे।

	גַּד וּמִגְדָּל-	וְחֻדָּשָׁה	צִנָּן	37
	और-मिगदल-गाद	और-हदाशा	सेनान	
	H4028	H2322	H6799	

यहूदा के परिवार को ये नगर भी दिये गये थे: सनान, हदाशा, मिगदलगाद,

	וּקְתָאֵל:	וְהַמִּצְפָּה	וְדִלְעָן	38
	और-योक्तेल	और-मिस्पे	और-दिलान	
	H3371	H4708	H1810	

दिलान, मिस्पे, योक्तेल,

	וְעִגְלוֹן:	וּבְכֻקָּת	לָקִישׁ	39
	और-एग्लोन	और-बोस्कत	लाकीश	
	H5700	H1218	H3923	

लाकीश, बोस्कत, एग्लोन,

	וּכְתִלִּישׁ:	וְלַחְמָס	וּכְבוֹן	40
	और-कितलीश	और-लहमास	और-कब्बोन	
	H3798	H3903	H3522	

कब्बोन, लहमास, कितलीश,

ס	וּחְצֵרֵיהֶן:	עֶשְׂרָה	שִׁשָּׁ-	עָרִים	וּמִקְדָּה	וּנְעֻמָּה	בֵּית-דָּגוֹן	וּגְדֵרוֹת	41
—	और-गांवों-उनके	दस	सोलह-	नगर	और-मक्केदा	और-नामा	बैत-दागोन	और-गेदेरोत	
		H6240	H8337		H4719		H1016	H1450	

गेदेरोत, बैतदागोन, नामा, और मक्केदा। सब मिलाकर वहाँ सोलह नगर और उनके सारे खेत थे।

	וְעֶשְׂרָן:	וְעֵתֶר	לִבְנָה	42
	और-आशान	और-ऐतेर	लिब्ना	
	H6228	H6281	H3841	

अन्य नगर जो यहूदा के लोग पाए वे ये थे: लिब्ना, ऐतेर, आशान,

	וּנְצִיב:	וְאַשְׁנָה	וְיִפְתָּח	43
	और-नसीब	और-अशना	और-यिप्ताह	
	H5334	H0823	H3316	

यिप्ताह, अशना, नसीब,

	וּחְצֵרֵיהֶן:	תְּשַׁע	עָרִים	וּמְרֵאשָׁה	וְאַכְזִיב	וּקְעִילָה	44
	और-गांवों-उनके	नौ	नगर	और-मारेशा	और-अकजीब	और-कईला	
		H8672		H4762	H0392	H7084	

कीला, अकजीब और मारेशा। सब मिलाकर ये नौ नगर और उनके सारे खेत थे।

	וּחְצֵרֵיהֶן:	וּבְנֵי-עֵקָר	עֶקְרוֹן	45
	और-गांवों-उसके	और-बेटियां-उसकी	एकरोन	
		H1323	H6138	

यहूदा के लोगों ने एकरोन नगर और निकट के छोटे नगर तथा सारे खेत भी पाए।

46	מַעְקָרוֹן एक्रोन-से	וּמְצָרֵיהֶן और-गांवों-उनके	אֶשְׁדוֹד अशदोद	עַל- पास-	יָד हाथ	כָּל सब	וּמִזְמָה और-पश्चिम	46
	H6138	H0795	H3027			H3605	H3220	

उन्होंने एक्रोन के पश्चिम के क्षेत्र, सारे खेत और अशदोद के निकट के नगर भी पाए।

47	אֶשְׁדוֹד अशदोद	בְּנֵי-עֵד तक-	וּמְצָרֵיהֶן और-गांवों-उसके	בְּנֵי-עֵד बेटियां-उसकी	עַזָּה गाज़ा	וּמְצָרֵיהֶן और-गांवों-उसके	בְּנֵי-עֵד बेटियां-उसकी	47
	H0795	H5704	H1323	H1323	H5804	H1323	H1323	
	וְהָיָה और-समुद्र	ס —	וּגְבוּלָהּ और-सीमा	וּגְבוּלָהּ बड़ा	וְהָיָה —	וְהָיָה —	H3220	
	H1366		H1366	H1366		H1366		

अशदोद की चारों ओर के क्षेत्र और वहाँ के छोटे नगर यहूदा प्रदेश के भाग थे। यहूदा के लोगों ने गाजा के चारों ओर के क्षेत्र, खेत और नगर प्राप्त किये। उनका प्रदेश मिस्र की सीमा पर बहने वाली नदी तक था और उनका प्रदेश भूमध्य सागर के तट के सहारे लगातार था।

48	וּבְהָרָה और-पहाड़ी-में	שָׁמִיר शामीर	וְיַתִּיר और-यत्तीर	וְשׁוֹכָה और-सोको	48
	H2022	H8069	H3492	H7755	

यहूदा के लोगों को पहाड़ी प्रदेश में भी नगर दिये गए। यहाँ उ नगरों की सूची है: शामीर, यत्तीर, सोको,

49	וּדְנָה और-दन्ना	וּקְרִיַת-סַנְנָה और-किर्यत-सन्ना	הָיָה वह	דָּבִיר दबीर	49
	H1837	H7158	H1931		

दन्ना, किर्यत्सन्ना (इसे दबीर भी कहते थे),

50	וְעֵנָב और-अनाब	וְאַשְׁתָּמוֹ और-एशतमो	וְעֵנָם और-आनीम	50
	H6024	H0851	H6044	

अनाब, एशतमो, आनीम,

51	וְגִשְׁשֵׁן और-गोशेन	וְחֹלֹן और-होलोन	וּגְלִיל और-गीलो	עָרִים नगर	אַחַת- ग्यारह-	עָרֵיהֶן दस	וּמְצָרֵיהֶן और-गांवों-उनके	51
	H1657	H2473	H1542	H0259	H6240			

गोशेन, होलोन और गीलो सब मिलाकर ग्यारह नगर और उनके खेत थे।

52	אַרָב अराब	וּרְוּמָה और-रूमा	וְאַשְׁשֵׁן और-एशआन	52
	H0694	H1746	H0824	

यहूदा के लोगों को ये नगर भी दिये गे थे: अराब, दूमा, एशान,

53	וְיִנְיָם —	(וְיִנְיָם) और-यानूम	וּבֵית-תַּפּוּחַ और-बैत-तप्पूह	וְאַפְקָה और-अपेका	53
	H3241	H3241	H1054	H0664	

यानीम, बेत्तप्पूह, अपेका,

54	וְחֻמְטָה और-हुमता	אַרְבַּע-קִרְיָת और-किर्यत-अर्बा	הָיָה वह	חֶבְרוֹן हेब्रोन	וְצִיֹּר और-सीओर	עָרִים नगर	תְּשַׁע नौ	וּמְצָרֵיהֶן और-गांवों-उनके	54
	H2547	H7153	H1931	H6730	H8672				

हुमता, किर्यतर्बा (हेब्रोन) और सीओर ये नौ नगर और इनके सारे खेत थे:

55	מַעֲוֵן माओन	כַּרְמֵל कर्मल	וְזִיָּב और-ज़ीप	וְיוֹטָתָה और-यूत्ता	55
	H4584	H3760	H2128	H3194	

यहूदा के लोगों को ये नगर भी दिये गये थे: माओन, कर्मेल, जीप, यूता,

וַיִּזְרְעֵאל וַיִּקְדָּעִם וּזְנוּחַ: 56
 और-यिज़ेल और-योकदआम और-ज़ानोह
[H3157](#) [H3347](#) [H2182](#)

यिज़ेल, योकदाम, जानोह,

וַחֲצֵרֵיהֶן: וְגֵבְעָה וְתַמְנָה עָרִים עֶשְׂרָה וְחֶקְלָן 57
 और-गांवों-उनके दस नगर और-तिम्ना गिबओ हक्काईन
[H6235](#) [H8553](#) [H1390](#)

कैन, गिबा और तिम्ना। ये सभी दस नगर और उनके सारे खेत थे।

חֶלְחֹל וְגִדְדֹר: בֵּית-צֹר וְהַגְדֹר: 58
 हलहूल और-गदोर बैत-सूर और-गदोर
[H1446](#) [H1049](#) [H2478](#)

यहूदा के लोगों को ये नगर भी दिए गए थे: हलहूल, बैतसूर, गदोर,

וּמְעָרָת וּבֵית-עֲנֹת וְאֶלְחָקָן עָרִים שֵׁשׁ וְחֲצֵרֵיהֶן: 59
 और-मारात और-बैत-अनोत और-एलतकोन छह और-गांवों-उनके
[H4638](#) [H1042](#) [H0515](#) [H8337](#)

मारात, बैतनीत और एलतकोन सभी छ: नगर और उनके सारे खेत थे।

קִרְיַת-בָּעַל קִרְיַת-רַבָּא יְעָרִים-קִרְיַת וְהַרְבָּבָה עָרִים שְׁתֵּי וְחֲצֵרֵיהֶן: 60
 किर्यत-बाल किर्यत-रब्बा किर्यत-यआरीम और-रब्बा नगर दो और-गांवों-उनके
[H7154](#) [H1931](#) [H7157](#) [H7237](#) [H8147](#)

यहूदा के लोगों के दो नगर रब्बा और किर्यतबाल (इसे किर्यत्यारीम भी कहा जाता था) दिए गए थे।

בְּמִדְבָּר הָעֵרְבָה-בֵּית מִדְיָן וּסְכָכָה: 61
 जंगल-में बैत-अराबा मिदीन और-सकाका
[H5527](#) [H4081](#) [H1026](#)

यहूदा के लोगों को मरुभूमि में नगर दिये गये थे। उन नगरों की सूची यह है: बैतराबा, मिदीन, सकाका,

וְהַנְּבָשָׁן וְעִיר-הַמְּלַח וְגִדְדֹעַן עָרִים שֵׁשׁ וְחֲצֵרֵיהֶן: 62
 और-निबशान और-ईर-हम्मेलह और-एन-गेदी नगर छह और-गांवों-उनके
[H5044](#) [H5898](#) [H5872](#) [H8337](#)

निबशान, लवण नगर और एनगादी। सब मिलाकर छ: नगर और उनके सारे खेत थे।

וְאֶת-הַיְבוּסִי יוֹשְׁבֵי יְרוּשָׁלַם לֹא- [יֹכְלוּ] (יֹכְלוּ) בְנֵי-יְהוּדָה לְהוֹרִישָׁם וַיֹּשֶׁב 63
 और-को यबूसी निवासियों यरूशलेम नहीं- सके पुत्र- यहूदा निकालने-की और-रहा
[H0853](#) [H2983](#) [H3427](#) [H3389](#) [H3808](#) [H3201](#) [H3201](#) [H3063](#) [H3423](#) [H3427](#)

הַיְבוּסִי אֶת-בְּנֵי יְהוּדָה בִּירוּשָׁלַם עַד הַיּוֹם הַזֶּה: 64
 यबूसी साथ पुत्रों यहूदा यरूशलेम-में तक दिन इस
[H0854](#) [H2983](#) [H3063](#) [H3389](#) [H5704](#) [H3117](#) [H2088](#)

यहूदा की सेना यरूशलेम में रहने वाले यबूसी लोगों को बलपूर्वक बाहर करने में समर्थ नहीं हुई। इसलिए अब तक यबूसी लगे यरूशलेम में यहूदा लोगों के बीच रहते हैं।